



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 478]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सं. 37/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 589(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 455 (अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु जुलाई, 2019 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 22 अगस्त 2019 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि, जुलाई, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारोबार का मूल स्थान नीचे दी गई तालिका के स्तभ (3) में उल्लिखित जिले में है, जो उक्त तालिका के स्तभ (2) में उल्लिखित राज्य में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

तालिका

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णियां, पश्चिम चंपारण
2.	गुजरात	वडोदरा
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बल्लारी, बेलगाम, चामराजनगर, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, हसन, हावेरी, कलबुर्गी, कोडागू, कोप्पल, मांड्या, मैसूरु, रायचूर, शिवमोगा, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर
4.	केरल	इडुक्की, मल्लापुरम, वायनाड, कोझिकोड
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, अहमदनगर
6.	ओडिशा	बलांगीर, सोनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगडा, नबरंगपुर
7.	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी, चमोली

परंतु यह भी कि, जुलाई, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारोबार का मूल स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”

2. यह अधिसूचना 20 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 20/06/08/2019- जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 29/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 455(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2019

No. 37/2019—Central Tax

G.S.R. 589(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.29/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 455(E), dated the 28th June, 2019, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of July, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 22nd August, 2019:

Provided further that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of July, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the Table below, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 20th September, 2019:

TABLE

Sl. No.	Name of State	Name of District
(1)	(2)	(3)
1.	Bihar	Araria, Kishanganj, Madhubani, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa, Katihar, Purnia, West Champaran
2.	Gujarat	Vadodara
3.	Karnataka	Bagalkot, Ballari, Belagavi, Chamarajanagar, Chikkamagalur, Dakshina Kannada, Davanagere, Dharwad, Gadag, Hassan, Haveri, Kalaburagi, Kodagu, Koppal, Mandya, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Udupi, Uttara Kannada, Vijayapura, Yadgir
4.	Kerala	Idukki, Malappuram, Wayanad, Kozhikode
5.	Maharashtra	Kolhapur, Sangli, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Nashik, Ahmednagar
6.	Odisha	Balangir, Sonapur, Kalahandi, Nuapada, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nawarangpur
7.	Uttarakhand	Uttarkashi and Chamoli

Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of July, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 20th September, 2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of August, 2019.

[F. No. 20/06/08/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 29/2019-Central Tax, dated the 28th June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 455(E), dated the 28th June, 2019.